

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन में वातावरण संबंधी बदलाव लाने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है!

***बोर्ड मेम्बर के तौर पर सेंटर फॉर कम्युनिटी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ें;
किसी व्यक्ति या कारोबार को, ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स के लिए नामांकित करें***

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (2 फरवरी, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, कम्युनिटी में व्यक्तियों, कारोबारों और संगठनों के लिए दो नए अवसर हैं।

सेंटर फॉर कम्युनिटी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन (सी.सी.ई.टी.)

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने सर्वसम्मति से, सी.सी.ई.टी. एडवाइजरी टास्क फोर्स (CCET Advisory Task Force) की सिफारिशों को मंजूरी दी है। इन सिफारिशों में शामिल हैं, नए सी.सी.ई.टी. बजट (CCET Budget) में 300,000 डॉलर की राशि के, एन्वायरनमेंटल मास्टर प्लान (Environmental Master Plan) कैपिटल बजट में मौजूदा कैपिटल फंड्स का दुबारा वितरण। यह फंडिंग, सिटी की जलवायु संबंधी परिवर्तनकारी कार्रवाई करने में सहायता करते हुए, सी.सी.ई.टी. (CCET) को स्थापित करने और इसके पहले वर्ष के ऑपरेशंस में सहायता करने में मदद करेगी। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए, www.brampton.ca/CCET पर जाएं।

मंजूर की गई फंडिंग के साथ सी.सी.ई.टी. अब, सी.सी.ई.टी. को औपचारिक तौर पर गैर-लाभ इन्कांर्पोरेशन में स्थापित करने में मदद हेतु, ट्रांजिशनल बोर्ड (Transitional Board) में वालंटियर करने के इच्छुक जोशीले व्यक्ति खोज रही है।

इस कौशल-आधारित गर्वनेंस बोर्ड में, वालंटियर आधार पर नौ मेम्बर और सी.सी.ई.टी. स्टाफ के पांच मेम्बर होंगे। वालंटियर बोर्ड संगठन की रणनीतिक दिशा के लिए जिम्मेदार होगा।

इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि, 25 फरवरी, 2022 है। www.brampton.ca/CCET पर पूरे विवरण पाएं और बोर्ड मेम्बर आवेदन जमा करें।

ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स (Grow Green Awards)

ब्रैम्पटन के नए ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स के लिए, किसी व्यक्ति, कारोबार, संगठन या इंस्टीट्यूट को नामांकित करें! यह अवॉर्ड पूरे ब्रैम्पटन में उन शानदार व्यक्तियों, कारोबारों और संगठनों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने वातावरण संबंधी लीडरशिप दर्शाई है और स्वस्थ, स्थिर तथा लचीला ब्रैम्पटन बनाने के लिए, हमारे कुदरती तथा निर्मित वातावरणों को कायम रखने, उनमें वृद्धि करने तथा संतुलन बिठाने के, ग्रो ग्रीन विजन (Grow Green Vision) में खास तौर पर योगदान दिया है।

चार अवॉर्ड श्रेणियों में शामिल हैं:

- **क्लाइमेट चेंज अवॉर्ड (Climate Change Award)** – यह अवॉर्ड किसी ऐसे व्यक्ति और कारोबार/संगठन को दिया जाता है, जिसने जलवायु संबंधी बदलाव में कमी और/या जलवायु संबंधी बदलाव अनुकूलन जागरूकता/जानकारी और कार्रवाई को आगे बढ़ाने में खास तौर पर योगदान दिया है।
- **स्टीवार्डशिप अवॉर्ड (Stewardship Award)** – यह अवॉर्ड किसी ऐसे व्यक्ति और कारोबार/संगठन को दिया जाता है, जिसने पेड़ों, कुदरती हेरिटेज सिस्टम, पानी और/या कूड़ा-कचरे को घटाने के प्रति संरक्षण और/या स्टीवार्डशिप से संबंधित, वातावरण संबंधी स्थिरता को आगे बढ़ाने में खास तौर पर योगदान दिया है।
- **एन्वायरनमेंटल यूथ अवॉर्ड (Environmental Youth Award)** – यह अवॉर्ड किसी ऐसे व्यक्ति या यूथ ग्रुप को दिया जाता है, जिसने वातावरण संबंधी सुरक्षा, जलवायु संबंधी बदलाव की कार्रवाइयों और/या ब्रैम्पटन में स्थिरता को आगे बढ़ाने में, असाधारण उपलब्धि दर्शाई है।
- **एन्वायरनमेंटल लेगसी अवॉर्ड (Environmental Legacy Award)** – यह अवॉर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने स्वस्थ, लचीला और स्थिर शहर बनाने के लिए, हमारे कुदरती तथा निर्मित वातावरणों को कायम रखने, उनमें वृद्धि करने तथा संतुलन बिठाने के, ग्रो ग्रीन विजन (Grow Green Vision) में शानदार निजी सर्विस और लगातार योगदान दिए हैं।

नामांकनों के लिए अंतिम तिथि, 28 फरवरी, 2022 है। पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करते हुए, अवॉर्ड्स समारोह, वसंत 2022 में व्यक्तिगत या वर्चुअल (आभासी) तौर पर आयोजित किया जाएगा। अवॉर्डों के बारे में अधिक विवरणों और नामांकन फार्म पूरा करने के लिए, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

हवाले

“ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी में वातावरण संबंधी हिमायतियों के कारण, एक ग्रीन सिटी और स्थिरता में लीडर है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जो ब्रैम्पटन में स्थिरता के लिए अपने योगदानों हेतु सम्मान का हकदार है, तो उसे ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स के लिए नामांकित करें। यदि आपको बोर्ड मेम्बर के तौर पर काम करने का अनुभव है, तो सी.सी.ई.टी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आवेदन करें।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हम ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स के लिए नामांकनों और सी.सी.ई.टी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आवेदनों की क्षमता देखने के लिए उत्साहित हैं। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल, ब्रैम्पटन में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैस निकालियों को 2050 तक, 80 प्रतिशत तक कम करने के हमारे सफर पर हमारे शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमसे जुड़ें और इस बदलाव का हिस्सा बनें।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, रीजनल काउंसिलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ग्रीन अवॉर्ड्स और सी.सी.ई.टी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अधिक ग्रीन सिटी के हमारे मिशन की हिमायत करते हैं, जैसे कि सी.ई.ई.आर.पी. और टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज में दिया गया है। हम, इन अवसरों के द्वारा जलवायु संबंधी बदलाव को कम करने में, ब्रैम्पटन के योगदानों में मदद के लिए और इसके लिए दूसरों को प्रेरित करने हेतु, सभी जलवायु संबंधी बदलाव के लीडर्स को आमंत्रित करते हैं।”

- *डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसिलर, वार्ड्स 2 और 6; मेम्बर, एन्वायरनमेंट एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी में जलवायु संबंधी बदलाव के लक्ष्यों को पूरा करने और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्थिरता में सुधार करने और हमारे वातावरण संबंधी स्टैंडर्ड्स में अधिक वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। Brampton.ca पर और जानें, किसी को ग्रीन अवॉर्ड्स के लिए नामांकित करें या सी.सी.ई.टी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आवेदन जमा करें।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca